

CIN: L74110DL1992PLC116773

July 26, 2024

BSE Limited 25th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051

Sub: Intimation under Regulation 30 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015-Communication sent to the shareholders and Notice publish in the newspaper w.r.t. Transfer of Equity shares to IEPF Authority

Dear Sir(s),

Pursuant to the Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

We enclose the following documents:

(i) Copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 26th July, 2024.

(ii) Copy of communication letters to the shareholders

The above letters were sent to the shareholders on July, 24 2024 through Registered post, who have not claimed their dividends for seven or more consecutive years and whose shares are liable for transfer to IEPF Authority. This is pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

The above information is also available on the website of the Company www.bestagrolife.com

This is for your information and records

Auth.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Best Agrolife Limited

CS & Compliance Officer

Encl: as stated

💿 Registered & Corporate Office : B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026



### RURAL REVIVAL TO LEAD GROWTH, SAYS KANTAR

# FMCG market projected to grow at 5% in FY25


VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, July 25

**THE ₹5-TRILLION** fast-moving consumer goods (FMCG) market is likely to see an overall volume growth of 5% in the 12 months ending March 2025 versus 4% in FY24, led by a revival in rural areas, research firm Kantar said on Thursday in its latest outlook on the market.

Kantar refers to the ongoing and previous fiscals as MAT March 2025 and MAT March 2024 — the moving annual total over each 12-month period. The agency did not specify value growth numbers.

Urban volume growth for the ongoing financial year is projected at 4.2%, while rural volume growth is forecast at 6.1%, a trend that is likely to get more pronounced in the coming years, the agency said. While the urban volume growth for the current fiscal is expected to be flat versus the year-ago period (4.2%), the rural growth rate will be higher by 170 basis points in comparison to the previous year (4.4%).

"Rural has been inching up slowly but steadily. In the March 2024 quarter, for instance, rural overtook urban growth and that trend has stayed in the June quarter. Rural is likely to see better growth levels compared to urban in the remainder of the year,"KRamakrishnan,managHousehold contribution to FMCG in India



over 12 months Source: Kantar Worldpanel

ing director, South Asia, Kantar

Worldpanel, said. In its post-results media call Tuesday, Hindustan Unilever's (HUL's) CEO & MD Rohit Jawa said some "green shoots of recovery" were visible in rural areas, though the company was monitoring the markets closely. "Market volume growth has been lower than what we would have liked due to the impact of sustained high inflation combined with erratic weather patterns. Consequently, rural growth, which used to surpass urban growth, had lagged behind urban over the last one year. In the last few

According to Mohit Malhotra, CEO, Dabur India, "real

months, there is some progress

in rural areas," Jawa said.

wage growth is a concern" as it could hurt FMCG consumption in rural areas. "For now, though, we've been seeing a revival in rural areas, which we believe will get a fillip with the monsoons which has covered

the country."

Athird of the industry's sales come from rural areas, though some companies such as Dabur and HUL have a higher rural according to sector analysts.

good monsoon this year are expected to contribute to the rural recovery. While urban consumption is higher and involves more categories, he said, the growth rate is slowing.

### share, with 40-50% of their sales coming from rural areas, Ramakrishnan said an increase in MSP of crops and

"What this indicates is that q-commerce is growing rapidly, Parle, Britannia top-choice

> The study also says of 38-40% in the period.

## More urban homes join q-comm bandwagon

**VIVEAT SUSAN PINTO** Mumbai, July 25

MORE INDIAN HOUSEHOLDS are turning to quick commerce for instant deliveries as lifestyle and shopping habits undergo a rapid change. A study by research agency Kantar, covering the top nine metros in India, notes that q-commerce is growing at nearly 1.7 times of e-commerce within households in these cities.

While e-commerce household growth stands at 19% in the top nine metros, q-commerce household growth is at 31% in the last one year, accord-

While the e-commerce household growth was 19%, that for q-commerce was at 31% last year

commerce comes even as the penetration of the channel at 5.6% is just a

ing to the

research

agency.

The

household

growth for q-

MIHIR VASAVDA

TWO UNIFORMED MEN with

thick British accents guard a

sanitised bridge and talk about

a pair of big, mysterious eyes

protruding from under a white

sheet on the left bank of the

Seine. A prop for Friday evening

quartiers — the beautiful cen-

tral neighbourhoods near the

river that house the French elite

— peer over from their bal-

conies to look at a piano lying

cyclists halts to take photos of

the golden confetti shimmer-

ing on a Haussmannian build-

ing. The chatter early morning

in the city centre is about the

rumours of Canadian singer

Celine Dion arriving in Paris on

a private jet from her home in

Emmanuel Macron was asked

about it. He did well to not reveal

all but, with a twinkle in his eye,

told France 2 television chan-

nel: "Apparently, she has arrived

in Paris. I would be immensely

happy if she could be at this

In greatest secrecy, Patrick

opening ceremony."

Even French President

Las Vegas.

Near Notre Dame, a group of

idle on a black promontory.

Those living in the beaux

— not a security threat.

Paris, July 25

quarter of that of e-commerce (21.8%) in the top nine metros.

albeit on a small base. At a broader level, it points to the affinity that urban homes now have to q-commerce, which is a channel that has evolved recently," K Ramakrishnan, managing director, South Asia, Kantar Worldpanel, said.

premium categories are seeing significant growth in q-commerce versus e-commerce and other channels. While the number of homes picking up hand wash, floor cleaners, fabric softeners and washing liquids has grown between 50% and 135% in the last year within the top nine metros, food products such as butter, cheese, oats, jams and basmati rice have seen a growth on opening ceremony today Boucheron, a French historian, Fanny Herrero, the screenwriter of the hit French series Call My Agent, and Leila Slimani, the author of best-selling novel Lullaby,got together to write what's

hyped as a never-seen-before

Olympics opening ceremony.

Beach volleyball players train at the Eiffel Tower Stadium in Paris on Thursday, on the eve of the Olympic Games

The Games are here, all eyes

Slowly, the teasers of a ceremony steeped in confidentiality are emerging — be it the art — so we have options. This time,

installations on both banks that have changed the look of Paris's landmarks, or the arrival of A-listers in their jets.

The ceremony has been the talking point ever since the Paris

Games organisers announced that, for the first time, it won't be held inside a stadium but along the River Seine. After years of planning, grappling with security threats and examining the tide timings, the moment is here. The only Indian woman to

win two Olympic medals, badminton star PV Sindhu, in her third Olympics, couldn't help but wonder how it will all look. As India's flag-bearer, she jokes that she may even practise holding the flag.

Another Indian athlete has a more mundane query: "Will our boat have toilets?" The athlete, requesting not to be named, has "overheard" conversations inside the Village that not all boats will have toilets. "Usually, we end up spending almost four hours at ceremonies like these. But it's inside a stadium,

it's a mystery," the athlete says.

When the Australian delegation raised this concern with the organis-PARIS 2024 ers, they were assured the athletes would spend not more than 45 minutes on boats.

> During this period, the 94 boats and 7,000 athletes will sail past iconic Parisian monuments like the Notre-Dame Cathedral, the Louvre Museum, Place de la Concorde, Grand Palais, Les Invalides, the Musée d'Orsay, finishing at Pont d'Iena at the foot of the Eiffel Tower.

Nearly 80 giant screens will be set up on the quayside for about 300,000 spectators half of the original projections but still the highest number of attendees in the history of the Olympics.

When the boat parade begins at Pont Neuf, the oldest standing bridge across the river at 7.30 pm local time, 3,000 performers will simultaneously begin their acts on both sides of the river. These include Celine Dion and Lady Gaga, BMX riders and skateboard champions who are expected to showcase their acrobatic tricks. And 12 tableaux that will showcase

French and Parisian history. These are some of the sketchy details that have emerged on the eve of the ceremony. They, however, have only added to the curiosity, leaving everyone wondering how these seemingly unrelated pictures will blend into a single coherent narrative.

Thomas Jolly, the creative director of the ceremony, handed over that responsibility to three people from equally unrelated backgrounds: Sli mani, Boucheron and Herrero. They brainstormed for nearly two years, and took the boat down from the Austerlitz Bridge to the Eiffel Tower. But to ensure it remains a closely guarded secret, they haven't been able to hold a full-fledged rehearsal.

And so, everyone speculates. The Games are here. And the guessing Games have begun.

### brands for consumers **GEETIKA SRIVASTAVA** Parle was the most chosen in-home brand

New Delhi, July 25

PARLE HAS SOLIDIFIED its position as India's most chosen in-home fast-moving consumer goods (FMCG) brand, according to the Kantar Brand Footprint report released on Thursday. This marks the 12th consecutive year that Parle has topped the charts. Meanwhile, Britannia clinched the title of the most chosen out-of-home (OOH) FMCG brand.

The report, which employs a consumer reach points (CRP) metric to measure brand performance, revealed a consistent preference for familiar brands amid inflationary pressures. One CRP represents a single instance of a shopper choosing a brand, integrating data on population, penetration, and frequency to provide a holistic view of brand performance. With a CRP score of 7,980

million, Parle held the top spot, followed by Britannia, Amul, Clinic Plus and Tata Consumer Products.

"Consumers are sticking to brands they know, which is why the ranking remains constant. Parle is one of the highest penetrative brands, and since it is also in the biscuit category, its frequency of consumption is very high. High penetration and for the 12th consecutive year, while Britannia clinched the title of the most chosen out-of-home brand

frequency with a constant population factor has led to a steady position at the top of the table," said K Ramakrishnan, managing director, South Asia, Kantar Worldpanel. He said the company has constantly pushed the envelope while maintaining and growing the penetration by encouraging rural distribution, offering pack sizes at affordable prices, and through effective communication to keep the mental availability alive.

Overall, **CRPs** have

increased almost 33% in five years. But every sector, barring dairy, showed slower CRP growth rate last year over the previous one. Haldiram's and Balaji are the only two brands in the 2024 top 25 in-home brand list to grow by over 30% in CRPs in 2023. Sunfeast had the biggest penetration gains in 2023 at 6.4. The report said seven

brands in the top 25 in-home rankings showed more than a 20% penetration increase in the last decade. Britannia led the way, followed by Surf Excel, Sunfeast, Haldiram's, Patanjali, Brooke Bond and Vim.

Among OOH brands, Britannia leads with 628 million CRPs. It is followed by Haldiram's, Cadbury, Balaji and Parle. The top five are all snacking brands and remain the same as 2023.



(Corporate Contracts Department) The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2<sup>rd</sup> Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road, Andheri East, Mumbai-400059 (Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER

The Tata Power Company Limited invites tenders for self / its subsidiaries, from eligible rendors for the following package (Two Part Bidding).

 CC25AND007: Outline Agreement (OLA) for 3 years for Supply, Installation, Commissioning & CAMC of IP CCTV System Supply. ast date for Bid Submission: 13" August 2024, 3:00 PM

For detailed NIT, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com Also, all future corrigendum's if any, to the said tender will be informed on Tender section

on website https://www.tatapower.com.only.

## Best Agrolife Limited

#### BEST AGROLIFE LIMITED CIN: L74110DL1992PLC116773

Registered Office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Telephone: 011-45803300 Fax: 011-45093518 E-mail: info@bestagrolife.com Website: www.bestagrolife.com

NOTICE (For the attention of Equity Shareholders of the Company) SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO IEPF (INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND)

This notice is published pursuant to the provisions of Section 124(5) and Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) issued by Ministry of Corporate Affairs and subsequent amendment thereto. Accordingly, all underlying equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven

consecutive years or more from financial year 2016-17 (Final Dividend) are required to be transferred to IEPF The Company has also sent individual communication to each of the shareholder(s) whose shares are liable to be transferred to demat account of IEPF Authority. The details of unclaimed/unpaid dividend and respective shares liable to be transferred are available on the website of the Company i.e. www.bestagrolife.com under

Shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may please note that the Company would be issuing duplicate share certificates in lieu of the original share certificates held by them for the purpose of conversion into demat form and subsequent transfer to demat account opened by IEPF Authority. Upon such issue, the original share certificates which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shareholder(s) holding shares in demat form, the transfer of shares to the demat account of IEPF Authority shall be effected by the Company through the

respective Depositories by way of Corporate Action. Pursuant to the IEPF Rules, all the underlying shares in respect of which the dividend has remained unclaimed/ unpaid for seven consecutive years will be transferred to demat account of IEPF Authority as per the prescribed imelines, after the last date i.e. November, 3 2024.

In view of the above, all such shareholder(s) are requested to make an application to the Company's Registra and Share Transfer Agent (contact details are given in the last para of this notice) by October 27, 2024 for claiming the unpaid dividend (final) for the FY 2016-17, so that their shares will not be transferred to the IEPF Authority. It may be noted that if no claim/application is received by the Company or the Company's Registrar and Share Transfer Agent by the aforesaid date, the Company will be compelled to transfer the underlying shares to the IEPF, without any further notice. Shareholder(s) may note that both the unpaid/unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF Bank/Demat Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from IEPF Authority after following the procedure as prescribed under the IEPF Rules.

For claiming unpaid/unclaimed dividend, shareholder(s) are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Mr. Praveen, M/s Skyline Financial Services Private Limited, D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Email: parveen@skylinerta.com; investors@skylinelinerta.com

Place: New Delhi

Date: 25-07-2024

By order of the Board For BEST AGROLIFE LIMITED

**ASTHA WAH** CS & COMPLIANCE OFFICER



### **Motilal Oswal Financial Services Limited**

Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opp. Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. CIN: L67190MH2005PLC153397, Tel: +91-22-7193 4200 / 4263, Fax: +91-22-5036 2365, Website: www.motilaloswalgroup.com, Email Id: shareholders@motilaloswal.com

BROKING & DISTRIBUTION I ASSET MANAGEMENT I HOME FINANCE I PRIVATE EQUITY INSTITUTIONAL EQUITIES | INVESTMENT BANKING | PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

### EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(₹ in Crores, unless otherwise stated)			
Quarter Ended (Unaudited)		Year Ended (Audited)	
June 30, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024	
2,312	1,502	7,100	
1,059	636	3,032	
1,059	636	3,032	
884	528	2,446	
1,023	672	2,631	
60	15	15	
		8,717	
14.78 14.58	8,90 8.89	41.16 40.73	
	Quarte (Unau June 30, 2024 2,312 1,059 1,059 884 1,023 60 14.78	Quarter Ended (Unaudited)  June 30, 2024 June 30, 2023  2,312 1,502  1,059 636  1,059 636  884 528  1,023 672  14.78 8.90	

Standalone

(₹ in Crores, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter Ended (Unaudited)		Year Ended (Audited)	
	June 30, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024	
Total Income from Operations	1,518	884	4,540	
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	619	345	1,792	
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	619	345	1,792	
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	519	287	1,490	

Place: Mumbai

Date: July 25, 2024

- The above is an extract of the Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and the Company's website www.motilaloswalgroup.com
- Results for the Quarter ended June 30, 2024 are in compliance with the Indian Accounting Standards (IND AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.
  - The said Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its Meeting held on July 25, 2024. For and on behalf of the Board of Directors of

**Motilal Oswal** 

**Motilal Oswal Financial Services Limited** 

Managing Director & Chief Executive Officer (DIN: 00024503)

financialexp.epapr.in \_\_\_\_\_

New Delhi

Note: Registration Nos.: INZ000158836 (BSE/NSE/MCX/NCDEX); CDSL and NSDL: IN-DP-16-2015; Research Analyst: INH000000412. AMFI: ARN -146822; Insurance Corporate Agent: CA0579

सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-40055, वेबसाइट: www.yesbank.in

2-श्री नीरज खंडेलवाल (गारंटर करोड़ छिंहत्तर लाख इकतालीस

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस का प्रकाशन

तद्दवारा सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता /सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) जिन्होंने बैंक से उनके द्वार

प्राप्त सुविधोंओं के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और जिनके सुविधा खाते की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में

वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी

अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पर्ते पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें बिना तामील के वापस कर दिया गया

**सुरक्षित संपत्ति का विवरण -** छत के अधिकार के बिना पूरी दूसरी मंजिल संपत्ति नंबर 82, ब्लॉक ए -1, पश्चिम विहार, नई दिल्ली -110063 में स्थित 167.22 वर्ग मीटर (200 वर्ग वर्ष) का क्षेत्र। सीमाएं- पूर्व: संपत्ति नं. ए-1/83, पश्चिम: संपत्ति नं. A-1/81, दक्षिण: सर्विस लेन 15 फीट,

**सुरक्षित संपत्ति का विवरण -** आवासीय मकान नंबर 575 क्षेत्र 250 वर्ग गज का है, सेक्टर -9 फरीदाबाद, तहसील बल्लभगढ़, जिला

उपरोक्त उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर (ओं)/बंधककर्ता (ओं) (जब भी लागू हो) को एतद्दवारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख

से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4

के तहत उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाएँ जाएंगे। इसके अलावा, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि सार्वजनिक नीलामी/बिक्री के लिए नोटिस के

प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि जमा की जाती है तो

बिक्री समाप्त नहीं की जाएगी और सुरक्षित संपत्ति हमारे द्वारा बेची या स्थानांतरित नहीं की जाएगी, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK पंजीकृत कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,

ऋण का उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं,

1-मेसर्स एसोसिएट्रेड स्टील

(उधार्कर्ता)

और मोर्टगेजर)

और मोर्टगेजर)

1-मैसर्स रोडेक्स ऑटोमोटिव

इंडस्ट्रीज ("उधारकर्ता")

2-श्री अमन शर्मा ("सह-

उधारकर्ता")।

3-श्री विजय शर्मा ("सह-

उधारकर्ता और गिरवीदार")

है और इस तरह उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ड्रॉप लाइन

ओवरड्राफ्ट

और

ओव्रड्राफ्ट

ड्रॉप लाइन

ओवरडाफ्ट

सुविधा

या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

खाता सं.

02386330000

2031 &

02388460000

1126

20889000002

24.

फॅरीदाबाद, हरियाणा 121006 में स्थित है।

दिनांक: 25.07.2024, स्थान: दिल्ली

13(2) नोटिस के अनुसार

बकाया

रु. 2,76,41,500.16/- (रुपये दो

केवल) 06.07.2024

रु. 96,50,257.38/- (रुपये

केवल) 05-जुलाई-2024 को देय

छियानवें लाख पचास हजार दो 29-सौ सत्तावन और अड़तीस पैसे मई-2024

हजार पांच सौ और सोलह जून-2024 जुलाई-20

की मांग की गई हैं।

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक हे समक्ष उत्तरी क्षेत्र,) नई दिल्ली शंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में ताजा टेक प्राईवेट लिमिटेड जेसका पंजीकृत कार्यालय : 9/6 ऑल्ड राजिन्द

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपन केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा १३ के अधीन आवेटन करने का प्रस्ताव करनी है जिस्से कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित कर वो लिए तारीख 22 जुलाई, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि

नगर, नई दिल्ली, दिल्ली—110060 इंडिया में स्थित :

कंपनी के पंजीकृत कार्यलय के प्रस्तावित स्थानांतरण र व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शप्य का कारण उठिलखित हो के साथ अपनी आपरि क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख़ से 14 विनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय मवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा गंज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त फीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

9/8 ऑल्ड राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली, विल्ली-110060 इंडिया कृतं आवेदक की ओर से

कृत्ते ताजा टॅक प्राईवेट लिमिटेट हस्ता./ विधान बरुअ निदेशक डीआईएन : 06461559 पता : एफ-084, टॉवर एफ, गुलशन विवात, सेक्टर 137, एक्सप्रेसवे नोएडा, नोएडा, चत्तर प्रदेश-201304

(This is a public announcement for information purposes only and is not a Prospectus announcement) (This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.)



## RAJPUTANA INDUSTRIES LIMITED

अधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड

Our Company was incorporated as "RAJPUTANA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED", a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated June 13, 2011, issued by ROC, Rajasthan. Thereafter, our Company was converted from a private limited company to a public limited company, pursuant to a resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on April 21, 2023, and consequently, the name of our Company was changed to "Rajputana Industries Limited" by deletion of the word 'Private'. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to public company dated May 04, 2023, was issued by the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan to our Company bearing Corporate Identification Number "U31909RJ2011PLC035485". For details of Incorporation, change of name and registered office of our company, please refer to chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 173. Registered & Corporate Office: F-269-(B), Road No. 13, VKIA, Jaipur Rajasthan 302013

Tel No: +91 - 9588841031 | Email: cs@rajputanaindustries.com | Website: www.rajputanaindustries.com Contact Person: Mrs. Sonal Jain, Company Secretary and Compliance Officer | CIN: U31909RJ2011PLC035485

PROMOTERS OF THE COMPANY: SHERA ENERGY LIMITED, ISHA INFRAPOWER PRIVATE LIMITED, MR. SHEIKH NASEEM AND MRS. SHIVANI SHEIKH

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 62,85,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF RAJPUTANA INDUSTRIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [.] PER EQUITY SHARE), AGGREGATING UPTO ₹ [.] LAKHS ("THE ISSUE"). THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 3,60,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [●] % OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION") UP TO 30,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [ • ] % OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND UP TO 3,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [•] % OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY THE SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS ("THE SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION, EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % AND [●] % RESPECTIVELY OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER, HAS UNDERTYAKEN A PRE-IPO PLACEMENT OF 6,00,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹228 LAKHS. THE SIZE OF THE FRESH ISSUE AS DISCLOSED IN THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS, AGGREGATING UP TO 68,85,000 EQUITY SHARES, HAS BEEN REDUCED BY 6,00,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE FRESH ISSUE IS FOR AN AGGREGATE UP TO 62.85.000 EQUITY SHARES AND THE MINIMUM ISSUE SIZE SHALL CONSTITUTE AT LEAST 10% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, IN COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR.

ADDENDUM OF THE RED HERRING PROSPECTUS DATED JULY 23, 2024 ("RHP")

### NOTICE TO INVESTORS ("ADDENDUM TO THE RHP")

This is with further reference to the RHP dated July 23, 2024, filed by the Company with the ROC. Potential bidders may note the following: The following should be added under the chapter titled "Issue Procedure" on page number 362 of the Red Herring Prospectus:

### ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT

The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors and Anchor Investors may be on proportionate basis. For Basis of Allotment to Anchor Investors, Bidders may refer to RHP. No Retail Individual Investor will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the remaining available shares, if any will be Allotted on a proportionate basis. The Issuer is required to receive a minimum subscription of 90% of the Issue. However, in case the Issue is in the nature of Offer for Sale only, then minimum subscription may not be applicable.

Flow of Events from the closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:

- On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.
- RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file/ Final Certificate and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSBs to identify the applications with third party account for rejection.
- Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T + 1 day.
- RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM/ Company for their review/ comments.
- Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE). The Designated Stock Exchange (DSE), post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random
- number generation software. The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allotees as per process mentioned below:
- PROCESS FOR GENERATING LIST OF ALLOTEES: -> Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate
- the bucket/batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 87654321 then system reverses it to 12345678 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drawal of lots provided by Designated Stock Exchange (DSE) is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th Application in each of the lot of the category and these applications will be allotted the shares in that category. > In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the over subscription
- In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications. > On the basis of the above, the RTA will work out the allotees, partial allotees and non-allottees, prepare the fund transfer letters and advice the
- SCSBs to debit or unblock the respective accounts.
- Accordingly, the Chapter "Issue Procedure" on page 362 RHP shall stand updated accordingly.

Further, the RHP dated July 23, 2024 filed with ROC, can be accessed through the link on the website of Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in, from the website of Rajputana Industries Limited at www.rajputanaindustries.com, from the website of Stock Exchange i.e. NSE at www.nseindia.com and from the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

The above addition is to be read in conjunction with the RHP and accordingly their references in the RHP stand amended pursuant to this Addendum to the RHP. The information in this Addendum to the RHP supplements the RHP and updates the information in the RHP, as applicable, However, please note that this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the RHP and the date hereof, and the information included in the RHP will suitably updated, including to the extent stated in this Addendum to the RHP, as may be applicable in the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and the Stock Exchange.

All Capitalized terms used in this Addendum to the RHP shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the RHP. REGISTRAR TO THE ISSUE **BOOK RUNNING LEAD MANAGER** 

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** HOLANI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED Office No. S-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, 401-405 & 416-418, 4th Floor, Soni Paris Point, Mahakali Caves Road, Next to Ahura Centre, Jai Singh Highway, Bani Park, Jaipur - 302016 Andheri (East), Mumbai - 400093 Tel No.: +91 0141-2203996 Tel: +91 022-6263 8200 Email: ipo@holaniconsultants.co.in Fax: +91 022-6263 8299 Website: www.holaniconsultants.co.in Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Mrs. Payal Jain Email: ipo@bigshareonline.com SEBI Registration No.: INM000012467 Investor Grievance ID: investor@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: Contact Person: Mr. Jibu John complaints.redressal@holaniconsultants.co.in SEBI Registration Number: INR000001385

For Rajputana Industries Limited On behalf of the Board of Directors

Shivani Sheikh

ramaads

Chairman and Managing Director

Rajputana Industries Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an Initial Public Issue of its Equity Shares and has filed the RHP dated July 23, 2024, with ROC. The RHP will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange i.e., NSE ltd at www.nseindia.com respectively and is available on the websites of the BRLM i.e., Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in . The potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, refer to the Section titled "Risk Factors" on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on the

RHP filed with the SEBI for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 31 of the RHP. The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), and may not be issued or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being issued and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such issues and sales occur. There will be no public issuing in the United States.

#### हावर्ड होटल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः २०, मौर्या कॉम्प्लेक्स, बी-२८, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 कॉर्पोरेट कार्यालयः होटल हावर्ड प्लाजा, फतेहाबाद रोड, आगरा–282001 (यूपी), भारत।

सीआईएनः L74899DL1989PLC038622; फोनः 0562–404–8600, फैक्सः 0562–404–8666, ईमेलः cs@howardhotelsltd.com, वेबसाइटः www.howard hotelsltd.com 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना इसके द्वारा स्चित किया जाता है कि कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को पूर्वाह्न ११:३० बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम

ने आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 ह लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धत दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण और वेबसाइट पर प्रसारः वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उन शेयरधारकों / सदस्यों को ईमेल कर दी गई है, जिनके ईमेल पते संबंधित परिपत्रों के अनुपालन

कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) ('डीपी') / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें एजीएम की सूचना शामित , कंपनी की वेबसाइट www.howardhotelsltd.com, स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध , बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है।

. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से शनिवार 17/08/2024 से शुक्रवा 23 / 08 / 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान बैठकों पर लागू नियमों और सचिवीय मानक –2 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व औ प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने शेयरधारकों/ सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पहले षरिमोट ई–वोटिंग' और एजीएम के दौरान 'ई–वोटिंग' व माध्यम से ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यग

- प्ते मतदान की सुविधा के लिए 'इंस्टावोट' नियुक्त किया है। ई—वोटिंग का विवरण नीचे दिया गया है: • केवल वहीं व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार 16/0/2024 को सदस्यों रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम में मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- रिमोट ई—वोटिंग ▶ रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार 20/08/2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और गुरुवार 22/08/2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए इंस्टावोट द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय क
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी शक्रवार 16ध8ध्2024 को कंपनी की चकता इक्विटी शेय
- पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और उनकी उपस्थिति को कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में फिर र अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है औ नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी शुक्रवार 16/08/2024 को शेयर रखता है, वह 35वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन कर
- । हालांकि, यदि शेयरधारक पहले से ही सीडीएसएल की ईजी/ईजीएस्ट सुविधा या एनएसडीएल की आईडीई एएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर
- एजीएम में ई—वोटिंग रिमोट ई—वोटिंग सुविधा के अलावा, सदस्यों को एजीएम में वोट करने का विकल्प भी दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे।
- ई—मेल पता / मोबाइल नंबर का पंजीकरणः जो शेयरधारक अपना ई–मेल पताध्मोबाइल नंबर पंजीकृत कराना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए– अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकत / अपडेट करें। भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए– कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इनटाइम

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

यदि शेयरधारकों / सदस्यों के पास ई-वोटिंग सुविधा / लॉगिन या एजीएम में भाग लेने से संबंधित कोई प्रश्न हैं, आप कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं: लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ल dehi@linkintime.co.in या सहायता अनुभाग के तहत www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इंस्टावोट ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें र enotices@linkintime-co-in पर ईमेल लिखें या 022—4918—6000 पर संपर्क करें। बोर्ड ने ई—वोटिंग प्रक्रिया क निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांचने के लिए मेसर्स एटीजी एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज (पूर्व में पूजा आनंद एंउ सोसिएट्स के नाम से जानी जाती थी), दिल्ली के पार्टनर श्री मुकुल त्यागी को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

स्थानः आगरा दिनांकः 25 जुलाई, 2024

शशांक मिश्र कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः ए-69714

हावर्ड होटल्स लिमिटेड के लिए

हस्ता /

#### Criminal Courts, Ludhiana n the court of Ms. Shaweta Jiviic

ludhiana Peshi: 16-08-2024 publication notice for proclamation under section 82 CRPC complaint r/w sec- 138 of N.IACT Kotak Mahindra Bank

#### Vs. M/s Radhe Enterprise

COMA/1555/2020

CNR NO. PBLD03-005643-2020 Notice To: 1. M/s Radhe Enterprises, Through Its Prop. Rachna Gupta, Mahaveer Colony, Teh. dabara, Gwalior M.P 2. Rachna Gupta Prop Of M/s Radhe enterprises, goyal colony, balla ka dera, ward no. 26 teh. dabra, gwalior M.P Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 16-08-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_n otice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

#### Criminal Court, Ludhiana In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana Poddar Tyres Limited

Vs.

Jaiswal Cycle Company CNR NO: PBLD03-031365-2020 COMA/6801/2020 Notice To: 1) M/s Jaiswal Cycle Company Address- Nighasan Road, Mela Road, Lakhimpur Khiri UP Through Its Prop Mr. Ved Parkash Jaiswal Prop Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served n the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 27-08 2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above

the above said case will be heard and

court. for details logon to:

otice&district=ludhiana

determined as per law, in your absence

Given under my hand and the seal of the

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_n

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ (कोर्ट-2) के समक्ष सीपी (सीएए) / 16 (सीएच) 2024 (दूसरा प्रस्ताव)

JMIC Ludhiana

के मामले में: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 को कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पढ़ित

फौजा सिंह इंफ्रास्ट्र क्वर प्राइवेट लिमिटेड . याचिकाकर्ता नंबर १ / ट्रांसफरर कंपनी

क्वाकंसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड \_\_ याचिकाकर्ता नंबर 2 / ट्रांसफरी कंपनी

कें बीच व्यवस्था की योजना के मामले में याचिका की सूचना

कंपनियों के समामेलन की योजना को मंजूरी देने के लिए घारा 230-232 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागु प्रावधानों के तहत एक याचिका फौजा सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1/ ट्रांसफरर कंपनी) और क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 2 / ट्रांसफरी कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ पीठ द्वारा की गई और दिनांक 02.07.2024 के एक आदेश द्वारा, उक्त याथिका 19,08,2024 को उक्त टिब्युनल के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छक किसी भी व्यक्ति को याधिकाकर्ता कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को नीचे उल्लिखित उसके इरादे की सूचना, उसके नाम और पते के साथ, उसके या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ भेजनी चाहिए, ताकि याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तक याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से 10 (दस) दिन पहले पहुँच जाए। जहां, वह याचिका का विरोध करना चाहता है तो विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति अधोहरताक्षरी को एक प्रति के साथ इस तरह के नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। याधिका की एक प्रति अघोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसी के लिए निर्धारित शुल्क के भूगतान पर प्रस्तुत की जाएगी।

याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए हस्ता/-

दिनांक : 25.07.2024 स्थान: मोहाली

नहश जैन (एडवोकेट अधिकृत प्रतिनिधि

कार्यालयः #898, पहली मंजिल, फेज -4, सैक्टर 59, मोहाँली - पंजाब फोन : 9914012447; ईमेल: advnahushjain@gmail.com



बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./-

आस्था वाही

कृते बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड

सीएस एवं अनुपालन अधिकारी

## ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यासयः पसैट गंठ. 906. असमायस मदन, 19. बाराखंमा रोड, नई दिल्ली—110001, भारत कॉपोरेट कार्यालयः ए-८९, सेक्टर-2, नोएडा (यू.पी.) 201301, भारत फोन: +91 120 4125476 ईनेस: info@orosil.com, वेबसाइट: www.orosil.com, CIN: L74110DL1994PLC059341 30 जून, 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए

## प्रति शेयर आय (अंकित मृत्य प्रति रू. 1/-) (वालु और बंद प्रवालनों के लिए) बेसिक : डायल्युटिड (रू में)

- 25 जुलाई, 2024 को आयोजित बैठक में 30 जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए कंपनी के उपरोक्त अनंकेंक्षित
- उपरोक्त अनंकेशित वितीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के जनुसार तैयार किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रधाओं और नीतियों को
- चुकि कंपनी एकल खंड में काम करती है, इसलिए खंड वार रिपोर्टिंग Ind AS 108 के अनुसार लागू नहीं है। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.orosii.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर

निदेशक मंडल के बादेश से कृते जोरोसिल रिमध्त इंडिया लिमिटेड हस्ता./-

DIN:00003629

Place: Jaipur

Date: July 25, 2024

(0:10)

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष इंडियन बैंक बनाम सुमोहिता कौर जय पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड के पर्सनल गारंटर के मामले में आईबी/744/एनडी/2023 में आईए/1145/एनडी/2024 में

की सं.

1000

हस्ता/

एतदुद्वारा सचित किया जाता कि कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली कोर्ट नं. IV ने दाखिल की गई याचिका की समीक्षा करने तथा उसके आदेश तिथि 20 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से आईबीसी संहिता की धारा 99 के अंतर्गत रिपोर्ट दाखिल करने के लिये इंडियन बैंक बनाम सुमोहिता कौर, कॉर्पोरेट डेब्टर मै. जय पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड के पर्सनल गारंटर के मामले में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्ताव कर्मी के रूप में नियक्त किया है। अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित पतेः डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 पर क्रमशः 04 जनवरी, 2024 तथा 13 मार्च

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अम्बूजा सीमेन्ट लिमिटेड CIN No.

L26942GJ1981PLC004717 जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शान्तिग्राम

वैश्नवीदेवी सर्किल के निकट, एस. जी. हाईवे, खोदियार, अहमदाबाद, गुजरात 382421 में है, का सदस्य

नाम जीवन लाल सुन्डा, संयुक्त नाम- 1 भारत भूषण सुन्डा का शेयर प्रमाणपत्र जिसका फोलियों नं. 511614

कि सदस्य नाम जीवन लाल सुन्डा का 02.12.1985 को निधन हो गया ऊपर वर्णित शेयर्स उसके जीवित संयुक्त

शेयरधारक नाम भारत भूषण सुन्डा को नाम में हस्तांतरित किया जायेगा। शेयर प्रामणपत्र से दिवंगत के नाम को

हटाने के लिये अनुरोध उक्त कम्पनी में दाखिल की गई है सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस

सुचना के 15 दिनों के भीतर उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में कोई आपित प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी मृतक

के नाम को हटाने तथा जीवित शेयरधारक के नाम में शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोध पर विचार करेगा तथा

18263

9186717-911587716

है तथा प्रमाणपत्र सं. तथा विशिष्ट सं. है, उनके नाम में धारित है।

21839671-21841670 2000

उसके याद उसके द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

2024 को ईमेल द्वारा पर्सनल गारंटर को आदेश की प्रति तथा आईबीसी संहिता की धारा 99 के अंतर्गत रिपोर्ट भेजा था। 13 मार्च, 2024 को रिपोर्ट स्पीड डाक से भेजी गई जो वापस लौट आई। लेकिन. वह अन्डेलिवर्ड रही तथा आरपी के पास वापस लौट आई। अतः उसके आदेश तिथि 19 जुलाई, 2024 के माध्यम से

माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली ने उसके लिये सार्वजनिक सचना जारी करने का निर्देश दिया था। अतएव, इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधोहस्ताक्षरी प्रतिवादी से आग्रह करते हैं कि उसकी अगली सुनवाई की तिथि 23 अगस्त 2024 को एनसीएलटी, नई दिल्ली कोर्ट IV के समक्ष उपस्थित हों।

आरपी का नामः पूजा दामिर मिगलानी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N01189/2021-2022/13994 पताः 83, न्यू संत फतेह सिंह नगर, डुगरी रोड, लुधियाना, ईमेल:ipcspdm@gmail.com

तिथि: 24 जुलाई, 2024

अचल सम्पत्ति के नीलामी/विक्रय का उदघोषणा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नोएडा कॉमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद के निम्नलिखित बाकीदार सदस्यों के विरूद्ध श्रीमान शिवम सिंह (विक्रय अधिकारी/स०वि०अ०) एवं अखिलेश शुक्ला (प्रत्यादान अधिकारी/अपर जिला सहकारी अधिकारी) सहकारिता विभाग, गाजियाबाद के कुर्की/नीलामी आदेश (सहकारी सिमति अधिनियम ९१ तथा ९२ एवं नियम ३१२ से ३५४ तक प्राविधानों में प्राप्त अधिकारों के अनुसार) दिनांक 21.06.2024 को तामील कराये गये। सारणी में बाकीदार सदस्यों के नाम, पता, सम्पत्ति विवरण व बकाया धनराशि अंकित करायी जा रही है।

क्रमांक नं. २ः खाता सं०. ०७०७००५८०।, बाकीदार का नाम व पताः मै० मैक्सपाई बैकर्स इण्डिया प्रा० लि०, डायरेक्टर-१ः हरीशंकर पुत्र श्री ओमकार सिंह।

२ः बबीता देवी, मकान सं. ३८५, ग्राम रईसपुर, गाजियाबाद। बन्धक सम्पत्ति का विवरणः बन्धक भूमि रकबई ०.२५३० हैक्टेयर यानि २५३० वर्ग मीटर, स्थित खसरा नं. १०२८/१, स्थित ग्राम दूहाई परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद। स्वामित्व हरिशंकर पुत्र श्री ओंकार सिंह। पूर्व में - रास्ता ८ फुट ३ इंच चौड़ा, पश्चिम में- विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तर में-सम्पत्ति जगदीश एवं ब्रहमपाल, दक्षिण में- विक्रेता की सम्पत्ति।

बकाया धनराशि रू. 63,25,760/- (तिरेसठ लाख पच्चीस हजार सात सौ साठ) दिनांक 30.04.2024

तक एवं तातारीख ब्याज व अन्य वसूली खर्चे। नीलामी/ विक्रय हेत् आरक्षित मूल्य 1,53,06,500/-

(एक करोड़ तिरेपन लाख छः हजार पांच सौ रूपये) रखा गया है। नीलामी का दिनांकः 31.07.2024. उपरोक्त सम्पत्तियों की नीलामी नोएडा कॉमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय ५०१, पंचम तल, सुन्दरम बिल्डिंग, आर०डी०सी०, गाजियाबाद पर खुली बोली बुलवाकर अपरान्ह में 2 बजे करायी जायेगी। नियम व शर्ते– (1) बोली से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को जमानत राशि के रूप में 50 हजार रूपये नगद जमा कराने होंगे जो उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर सभी बोलीदाताओं को जमानत राशि उसी समय वापिस कर दी जायेगी। (२) सबसे उच्चतम बोलीदाता को नीलामी धनराशि की एक चौथाई धनराशि उसी समय नगद/ बैंक डाफ्ट द्वारा जमा करानी होगी अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। शेष तीन चौथाई वनराशि एवं विक्रय प्रमाण पत्र के निमित्त सामान्य स्टाम्प के लिए अपेक्षित धनराशि का भुगतान नीलामी दिनांक से 15 दिन के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) किसी भी दशा में बोली जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से कम स्वीकार नहीं होगी। (4) नीलामी प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी अधिकारी का होगा। सभी इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि नीलामी से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित बैंक नोएडा कॉमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय ५०१, पंचम तल सुन्दरम बिल्डिंग आर०डी०सी० गाजियाबाद अथवा

शिवम सिंह (विक्रय अधिकारी/ स०वि०अ०) एवं अखिलेश शुक्ला (प्रत्यादान अधिकारी/ अपर जिला सहकारी

अधिकारी) सहकारिता विभाग, गाजियाबाद से सम्पर्क कर सकते हैं। प्रत्यादान अधिकारी/ अपर जिला सहकारी अधिकारी एवं विक्रय अधिकारी स0वि०अ०, सहकारिता विभाग, गानियाबाद



बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड सीआईएन : L74110DL1992PLC116773 पंजीकृत कार्यालय : बी-4, भगवान दास नगर, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 दुरभाष : 011-45803300, फैक्स : 011-45093518 ई-मेल : info@bestagrolife.com, वेबसाइट : www.bestagrolife.com

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषय : कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि) में अंतरण यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण और धनवापसी) नेयमावली 2016 (आईईपीएफ नियमावली) तथा उसके बाद के संशोधन के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा

(अंतिम लाभांश) का भूगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया कंपनी ने उन प्रत्येक शेयरधारक(ओं) को व्यक्तिगत संचार भी भेजा है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने योग्य हैं। अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश और अंतरित किये जाने योग्य संबंधित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात

तदनुसार, सभी अंतर्निहित इक्विटी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2016—17 से लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश

www.bestagrolife.com पर "निवेशक" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं। शेयरधारक(गण) जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ में अंतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी, डिमेट फॉर्म में अंतरण तथा इसके बाद आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा खोजने जानेवाले डिमेट खाता में अंतरण के उददेश्यार्थ उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र निर्गत करेगी। ऐसे निर्गतन पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वचालित रूप में निरस्त हो जायेंगे और अ–परक्राम्य माने जायेंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक(गणों) की स्थिति में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का अंतरण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जायेगा।

उन्हें अंतिम तिथि अर्थात् 3 नवंबर 2024 के बाद निर्धारित समयसीमा के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर उपर्युक्त के दुष्टिगत, ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2016—17 के अप्रदत्त लाभांश (अंतिम) का दावा करने के लिये 27 अक्टूबर 2024 तक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (संपर्क विवरण इस सूचना के अंतिम अनुच्छेद में दिये गये हैं) को एक आवेदन प्रस्तुत करें, जिससे कि उनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित नहीं किये जायेंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त तिथि तक कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को कोई भी दावा / आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी भावी सूचना के अंतर्निहित शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करने के लिए बाध्य होगी। शेयरधारक ध्यान दें कि अप्रदत्त ' अदावाकृत दोनों प्रकार के लाभांश और आईईपीएफ बैंक / डीमैट खाते में अंतरित किए गए शेयर, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी

लाभों सहित, यदि कोई हो, का उनके द्वारा आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ

आईईपीएफ नियमावली के अनुसार, सभी अंतर्निहित शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश अदावाकृत / अप्रदत्त रहा है,

अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिये, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, श्री प्रवीण, मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153/ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ईमेल parveen@skylinerta.com; investors@skylinelinerta.com से संपर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25-07-2024

124(5) और धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है।

## kuhjohl

अनंकेक्षित विलीय परिणामों का विवरण

丣.	- SERVAL SOMEON	- 2004 MARCH		विवरण 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023	Control of the contro		- Control of the cont	
ਲਾ. ਚ.	विवरण	विवरण 30.06.2024 31.03.2024	30.06.2023		31.03.2024			
		(अनंकेक्षित)	(अंकेंसित)	सत) (अनंकेश्वित)	(अंकेशित)			
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	4.99	13.31	12.18	54.51			
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर. अपनादात्मक तथा/व असाधारण मदों से पूर्व)	-13,58	-6.90	-10,35	(40.77)			
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(डानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	-13.58	-6.90	-10.35	(40.77)			
4	कर कें बाद अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण गर्दों के बाद)	-13.58	-6.86	-10,31	(40.66)			
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(डानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल		-0.88	0.29	(0.01)			
6	इक्विटी शेयर पूंजी	413,16	413.16	413.16	413.16			
7	अन्य इविवटी	20	3	\$	11170000000			

स्थानः दिल्ली

विधिः 25 जुलाई, 2024

वित्तीय परिणामों की ऑंकिट कमेंटी द्वारा समीक्षा तथा निदेशक मंडल बैठक द्वारा स्वीकृत किए गए।

3 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमारी के आंकर्र वर्ष 31 मार्च, 2024 के लेखापरीक्षित आंकर्डों और 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ माह के लिए प्रकाशित अलेखापरीक्षित आंकड़ों के बीच संतुलित आंकड़े हैं जो सीमित समीक्षा के अधीन थे।

पिछली वर्ष/तिमाडी के आकड़ों को तिमाडी/छमाडी के साथ तुलनीय बनाने के लिए जड़ां भी आवश्यक हुआ पुनःसमूहित/पुनःवर्शीकृत किए गया है। 7 30 जून, 2024 को समाप्त पहली विमाही के दौरान निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं श्री।

> बी. के नफला (प्रबंध निदेशक)

#### **BEST AGROLIFE LIMITED**

CIN: L74110DL1992PLC116773

Registered Office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026

Telephone: 011-45803300 Fax: 011-45093518

E-mail: info@bestagrolife.com Website: www.bestagrolife.com

SFSPL\1458\45\683

**MANISH BHALA** 14/32 IST FLOOR SHAKTI NAGAR **DELHI - 110007** 

Dear Shareholder (s),

#### SUB: TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND/ EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

Kind Attention of the shareholders is drawn towards the unpaid amount out of the Final dividend for the financial year 2016-17, which was declared at Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 27, 2017 and is required to be deposited in IEPF Account on November, 3 2024.

Now, we wish to inform you that, in terms of provisions of Section 124 (6) and other applicable provisions the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the IEPF Rules), the dividend which remains unpaid/unclaimed for a period of 7consecutive years is required to be transferred by the Company to IEPF, established by the Central Government and all underlying shares in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for 7 consecutive years also needs to be transferred to Demat account of IEPF Authority along with such unpaid dividend.

As per our records, you have not encashed any dividend, declared by the Company during the last 7 years. Accordingly, you must claim for unpaid dividend. In case the Company does not receive necessary documents required for claiming unpaid dividend before 27th October 2024, the Company shall, in order to comply with the requirements of the Act and IEPF Rules, transfer the shares to the Demat Account of IEPF Authority on November, 3 2024, as per the procedure set out in the Act and IEPF Rules without any further notice to the shareholder. The Shareholder may note that once the dividend and their corresponding shares are credited to the Demat Account of IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect thereof, pursuant to the Act and IEPF Rules.

The Company has also uploaded complete details of such shareholder(s) and shares due to be transferred to the IEPF Authority on its website www.bestagrolife.com. The Shareholder is requested to refer to company's website www.bestagrolife.com to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

The shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in Demat Form, to the extent of shares liable to be transferred shall stand debited from the shareholder's account.

Shareholder may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by making an application in form IEPF-5 online at www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the form along with the required supporting documents, specified in the said form IEPF 5 to the Company/ RTA for verification of your claims.

For any queries on the aforesaid subject the shareholder is requested to contact the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent with a request giving necessary details (i.e. Folio no, DP-ID & client ID no. (if any), current address and contact numbers & details of Non-receipt of the Dividend Warrant etc.) at the earliest at the following addresses:-

Company:

The Company Secretary, **BEST AGROLIFE LIMITED** 

CIN: L74110DL1992PLC116773

Registered Office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi

Bagh, New Delhi-110026

E-mail: info@bestagrolife.com /cs@bestagrolife.com #

**Registrar & Share Transfer Agent:** Skyline Financial Services Private Limited,

D-153/A. Ist Floor. Okhla Industrial Area.

Phase-1, New Delhi- 110 020

Email: parveen@skylinerta.com; investors@skylinelinerta.com

Phone: (011)-26812682, 83, (011)-40450193-96#

Thanking you, Yours faithfully,

For The Best Agrolife Ltd.

Sd/-

Astha Wahi

**CS & Compliance Officer** 

Place: New Delhi Date: 23th July 2024.